

खबर कोना



इक्वाडोर के डुरान में बढ़ती हिंसाओं के चलते बनाए गए जांच केंद्र पर व्यक्ति की तलाशी लेता पुलिस अधिकारी।

जापान : 'काकपिट' की खिड़की में दरार, विमान वापस हवाई अड्डे पर लौटा

तोको, 14 जनवरी (एपी)।

आल निपन एयरवेज के एक विमान के काकपिट की एक खिड़की पर दरार दिखने के बाद विमान उत्तरी जापान के सम्पोर स्थित हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। विमान कंपनी और मीडिया ने यह जानकारी दी। विमान कंपनी ने बताया कि एएनए उड़ान संख्या 1182 शनिवार को मध्य जापान के तोयामा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी लेकिन मरम्मत के लिए न्यू चितोस हवाई अड्डे पर लौट आई। कंपनी के मुताबिक विमान में सवार 65 व्यक्तियों में से किसी को कोई चोट नहीं आई।

इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

अगम, 14 जनवरी (एपी)।

इंडोनेशिया के माउंट मरापी ज्वालामुखी में रविवार को फिर से विस्फोट हो गया, जिससे हवा में दूर-दूर तक धुआं और राख फैल गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वेस्ट सुमात्रा प्रांत में 'द मरापी वाल्केनो आब्जरवेशन पोस्ट' ने विस्फोट के दौरान लगभग 1,300 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार दर्ज किया और उसके बाद माने राख की बारिश होने लगी है। आसपास के गांवों की सड़कें और वाहन राख से अट गए। इंडोनेशियाई अधिकारियों द्वारा बुधवार को चेतावनी जारी कर कहा गया था कि ज्वालामुखी का स्तर दो से तीन या दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ने की आशंका है, जिसके बाद युद्धावर को आसपास के इलाकों से कम से कम 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।

'उत्तर कोरिया ने समुद्र की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी'

सोल, 14 जनवरी (एपी)।

दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ ने बताया कि मिसाइल रविवार को दागी गई लेकिन उन्होंने अन्य कोई जानकारी नहीं दी जैसे कि मिसाइल ने किनारी दूर तक उड़ान भरी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि उसने उत्तर कोरिया द्वारा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण किए जाने का पता लगाया है लेकिन और कोई जानकारी नहीं दी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने दावोस में की चर्चा

भारत समेत कई देशों ने यूक्रेन में शांति बहाली पर दिया जोर

दावोस, 14 जनवरी (भाषा)।

कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) ने यूक्रेन शांति सूत्र पर चर्चा के लिए रविवार को यहां एक बैठक की। भारत और कई अन्य देश यूक्रेन में शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं। यूक्रेन के साथ बैठक की सह-मेजबानी करने वाले स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखते हुए स्विट्जरलैंड बैठक का आयोजन कर रहा है।



कोपेनहेगन, जेद्दा और माल्टा में बैठकें हो चुकी हैं। भारत ने हमेशा यूक्रेन में शांति बहाली की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेस्की के साथ चर्चा के दौरान कहा था कि भारत शांति बहाल करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान भी मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। सूत्रों

ने कहा कि दावोस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने फिर से जल्द शांति बहाली का आह्वान किया। हालांकि, फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने कहा कि इसमें 81 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यरमक ने स्विट्स फेडरल कार्डंसलर इग्नाजियो कैसिस के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर बातचीत को अंतिम रूप देना है। मंत्रालय ने कहा कि इन सिद्धांतों को शांति प्रक्रिया के अगले चरणों का आधार बनाना चाहिए। स्विट्जरलैंड दावोस में सम्मेलन के जिए इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा

हमास को कुचलने से इजराइल को कोई नहीं रोक सकता

गाजा पट्टी, 14 जनवरी (एपी)।



इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जारी युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बीच कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ जीत मिलने तक युद्ध जारी रखेगा और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) समेत कोई उसे रोक नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने दक्षिण अफ्रीका के इन आरोपों को लेकर दो दिन सुनवाई की कि इजराइल फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है।


इजराइल ने इन आरोपों को सिर से खारिज किया है। नेतन्याहू ने आइसीजे में सुनवाई के बाद यह बयान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने न्यायालय से इजराइल को यह आदेश देने का अनुरोध किया है कि वह अपने भीषण हवाई और जमीनी हमलों को अंतरिम कदम के तहत रोके। आइसीजे का मुख्यालय हेग में है। नेतन्याहू ने इरान और उसके सहयोगी

कोरोना के 375 नए मामले सामने आए बीते 24 घंटे में कर्नाटक में संक्रमण से दो लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 14 जनवरी।

देश में बीते 24 घंटे में कोरोना विषाणु संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए हैं। जबकि, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,075 पर आ गई है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना से संक्रमित दो लोगों की मौत हो गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले साल पांच दिसंबर तक रोजाना मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और विषाणु के नए बहुरूप जेएन.1 के कारण कोरोना के मामलों में तेजी आई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पांच दिसंबर के बाद एक दिन में कोरोना विषाणु के सर्वाधिक नए मामलों की संख्या 31 दिसंबर 2023 को 841 दर्ज की गई, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2



फीसद था। कोरोना के 3,238 उपचाराधीन मरीजों में से तकरीबन 92 फीसद मरीज घर पर ही पृथक्वास में हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 'जेएन.1' बहुरूप की वजह से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और न

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले साल पांच दिसंबर तक रोजाना मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और विषाणु के नए बहुरूप जेएन.1 के कारण कोरोना के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, अब तक कोरोना संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है।

ही अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की तादाद में बढोतरी हुई है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, अब तक कोरोना संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है। इसलिए फिलहाल की स्थिति को देखते हुए चघराने की जरूरत नहीं है।



प्रदर्शन वाशिंगटन में फिलिस्तीन के समर्थन में रविवार को रेली निकालकर विरोध जताते प्रदर्शनकारी।

'आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कम जानकारी के आधार पर किया गया'

इस्लामाबाद, 14 जनवरी (भाषा)।

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन बेहद कम जानकारी के आधार पर किया गया और वह उनके बीच टिकट वितरण से काफी हद तक अनजान थे। 'दान' अखबार की एक खबर के अनुसार, खान ने शनिवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अदालती कार्यवाही में भाग लेने के बाद ये टिप्पणी की।

अदालती कार्यवाही शुरू होने से पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के लगभग दो दर्जन कार्यकर्ताओं और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं ने 71 वर्षीय खान से पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिये जाने की शिकायत की। अखबार में कहा गया कि उन्होंने उन्हें बताया कि टिकट उन्हें प्राप्त थोड़ी सी जानकारी के आधार पर दिए गए और वह उनके

टिकट वितरण से वह अनजान थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि पार्टी नेताओं के साथ एक संक्षिप्त चर्चा में 850 टिकटों के वितरण के बारे में त्वरित निर्णय लेना उनके लिए संभव नहीं था। खान ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी नवाज शरीफ पर 'पसंद के अंपायरों के साथ' मैच खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धन शोधन करने वाला एक प्रमाणित व्यक्ति 'लंदन योजना' के तहत पाकिस्तान लौट आया और उसे सुरक्षित रास्ता दे दिया गया क्योंकि अदालतें कथित तौर पर उनके विरोधियों के प्रति उदार दिखीं।

एक सवाल के जवाब में कि क्या वह कुछ हलकों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि उन्हें 18 महीने पहले बातचीत का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि 'किसके साथ' और 'किस लिए' बातचीत करनी है। इमरान ने कहा कि चर्चा के लिए केवल एक ही मुद्दा बचा है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का है।

सीमा पार संपर्क सुविधा बढ़ाने के वास्ते भारत-नेपाल द्विपक्षीय पहल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध

काठमांडो, 14 जनवरी (भाषा)।

भारत और नेपाल के अधिकारियों ने आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की तथा दोनों देशों ने सीमा पार निर्बाध संपर्क सुविधा को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय पहल लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।

अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए व्यापार, पारमन और सहयोग संबंधी भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति (आइजीएससी) ने 12-13 जनवरी को काठमांडो में सत्र आयोजित किया। दोनों पक्षों ने औषधीय और आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच पर भी चर्चा की। भारतीय पक्ष ने एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए पेरिस संधि के प्रावधानों के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव

'नेपाल का भारत के साथ संबंध अधिक प्रगाढ़'

जनकपुर, 14 जनवरी (भाषा)। नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिमलेन्द्र निधि ने कहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच स्थित नेपाल पर दोनों पड़ोसी देशों का प्रभाव है।

मगर 'बेटी-रोटी' का संबंध होने के कारण तुलनात्मक रूप से नेपाल का सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक संबंध भारत से अधिक प्रगाढ़ है।

भौगोलिक और राजनीतिक संबंध भारत से अधिक प्रगाढ़ है। नेपाल, भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और चीन आकार में बड़े हैं। दोनों देशों का प्रभाव नेपाल पर है, (साथ ही) नेपाल का भी दोनों देशों पर प्रभाव है। तुलनात्मक रूप से देखें तो नेपाल का सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक संबंध भारत से अधिक प्रगाढ़ है।

विपुल बंसल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों और काठमांडो स्थित भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

नेपाली पक्ष का नेतृत्व नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव राम चंद्र तिवारी ने किया। उनके अलावा विभिन्न नेपाली मंत्रालयों और विभागों के

अधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इस बैठक में एकीकृत जांच चौकियों और रेलवे लिंक के निर्माण सहित भारत एवं नेपाल के बीच सीमा पार निर्बाध संपर्क सेवा को और मजबूत करने के मकसद से द्विपक्षीय पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने समृद्ध द्विपक्षीय व्यापार के साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए इन पहलों को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

(Continued from previous page...)

advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 29 of Red Herring Prospectus.

CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: This is the issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in section "Basis of Issue Price" on page no. 124 of the Red Herring Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the section titled "Risk factors" and "Restated Financial Statement" on page no. 29 and 249 respectively of the Red Herring Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 206 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 426 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 18,00,00,000/- divided into 1,80,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each and ₹ 10,25,00,000/- divided into 1,02,50,000 Preference Shares of ₹ 10/- each the issued, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 11,77,27,320/- divided into 1,17,72,732 Equity Shares of ₹10/- each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 73 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Ramanuj Mukherjee- 5,000 Equity Shares and Abhyudaya Sunil Agarwal - 5000 Equity Share, aggregating to 10,000 Equity Shares of ₹1/- each.

Thereafter, the share capital of the company is consolidated from ₹ 1/- per equity share to ₹10/- per equity share by passing an Ordinary Resolution in a duly convened Annual General Meeting held on September 19, 2023.

<p>BOOK RUNNING LEAD MANAGER</p> <p>Narnolia</p> <p>NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED 201, 2nd Floor, Marble Arch, 236 B A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal- 700020, India Tel: +91-8130678743 Email: pankaj.passi@narnolia.com Contact Person: Mr. Pankaj Passi Website: www.narnolia.com SEBI Registration Number: INM000010791 CIN: U51909WB1995PL027876</p>	<p>REGISTRAR TO THE ISSUE</p> <p>Maashitla</p> <p>MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034, India Telephone: 011-45121795 Email: ipo@maashitla.com Website: www.maashitla.com Contact Person: Mr. Mukul Agrawal SEBI Registration Number: INR000004370 CIN: U67100DL2010PTC208725</p>
<p>COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER</p> <p>Ms. Komal Shah Space Creators Heights, 3rd floor, Landmark Cyber Park, Golf Course Extension, Sector 67, Gurgaon, Haryana - 122102 Telephone: +91 124 4143608 Email: compliance@lawsikho.in Website: https://lawsikho.com/</p> <p>Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.</p>	

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager to the Issue at www.narnolia.com, website of company at https://lawsikho.com/ and websites of stock exchange at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Addictive Learning Technology Limited (Telephone: +91 124 4143608) Lead Manager: Narnolia Financial Services Limited (Telephone: +91- 8130678743). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE (www.nseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Red Herring Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 323 of the Red Herring Prospectus.

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular (SEBI/HO/CFD/ DIL2/CIR/P/2019/50) dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76) dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019, SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/45 dated April 5, 2022 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor have to apply through UPI Mechanism. Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 323 of the Red Herring Prospectus.

Sponsor Bank to the Issue: YES Bank Limited

Banker to the Issue, Escrow Collection Bank and Refund Banker: YES Bank Limited

Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of the Board of Directors
For ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED
Sd/-
Ramanuj Mukherjee
Managing Director

Place: Gurugram, Haryana
Date: January 15, 2024

Addictive Learning Technology Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Delhi on January 10, 2024, to the Issue at www.narnolia.com, website of company at https://lawsikho.com/ and websites of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

AdBaz